

Ref. No.P-66/2024-25/14  
May 30, 2024

The Relationship Manager,  
Department of Corporate Relations  
BSE Limited,  
P.J. Towers, Dalal Street  
Fort, MUMBAI – 400 001

Dear Sir,

**Sub.: Submission of Advertisement Clipping of Extract of the Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2024**

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of the advertisement clipping of Extract of the Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and year ended 31st March, 2024 published in Business Standard, Mumbai and Swadesh Bhopal dated 30th May, 2023. The said financials were approved at the Meeting of the Board of Directors of the Company held on Wednesday, 29th May, 2024.

This is for your information, action and record please.

Thanking You,  
For 3B BlackBio Dx Limited (Formerly, Kilpest India Limited)

NIKHILKUB  
ER DUBEY

Digitally signed by  
NIKHILKUBER  
DUBEY  
Date: 2024.05.30  
14:07:23 +05'30'

Nikhil Kuber Dubey  
Whole Time Director  
DIN: 00538049

Encl: As above



**EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED RESULTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024**

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		31-03-2024	31-03-2023	31-03-2024	31-03-2023
1	Total Income from operations (net)	10.52	21.40	12.35	54.37
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(36.03)	(40.95)	(76.38)	(195.45)
3	Net Profit / (Loss) for the period (after tax, exceptional and/or extraordinary items)	(36.03)	(40.95)	(76.38)	(195.45)
4	Net Profit / (Loss) for the period (after tax, exceptional and/or extraordinary items) (after exceptional and/or extraordinary items)	(36.03)	(40.95)	(76.38)	(195.45)
5	Total Comprehensive Income/(Loss) for the period	(46.58)	(40.95)	(86.67)	(206.01)
6	Equity Share Capital	2,152.50	2,152.50	2,152.50	2,152.50
7	Reserves (excluding revaluation reserve as shown in the audited balance sheet of previous year)	(1,07.17)	(1.10)	(1.29)	(0.82)
8	Earnings Per Share (of Rs 10/- each)	(0.17)	(0.10)	(0.29)	(0.89)
9	Basic	(0.17)	(0.10)	(0.29)	(0.89)
10	Diluted	(0.17)	(0.10)	(0.29)	(0.89)

Note: The above is an extract of the detailed format of the financial results for the year ended 31st March, 2024, filed with the Bombay Stock Exchange, under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the year ended 31st March, 2024 is available on the website of the Exchange, www.bseindia.com and on the Company's website.

Date: May 29, 2024  
Place: Lucknow

(Bibek Roy Choudhary) Director  
DIN: 07663995

**EXTRACT OF ADDED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31st MARCH 2024 (Rs. In Lacs)**

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
1	Total Income from Operations	25.86	73.62	71.75	71.75
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items #)	20.70	55.27	59.22	59.22
3	Net Profit / (Loss) for the period (after tax, Exceptional and/or Extraordinary Items #)	20.70	55.27	59.22	59.22
4	Net Profit / (Loss) for the period (after tax, Exceptional and/or Extraordinary Items) (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	20.70	55.27	59.22	59.22
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	19.88	50.50	60.07	60.07
6	Equity Share Capital	1399.59	1399.59	1399.59	1399.59
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	(0.15)	0.31	0.32	0.32
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	0.15	0.31	0.32	0.32
9	Basic	0.15	0.31	0.32	0.32
10	Diluted	0.15	0.31	0.32	0.32

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange website i.e., www.sebiindia.com and on the Company's website: www.cmsinvestltd.com

The impact on net profit, loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.

(a) - Exceptional and/or Extraordinary Items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS (AS) Rules, whichever is applicable.

By order of the Board  
For CMS FINVEST LIMITED  
Date: 28th May, 2024

Place: Kolkata  
Sd/- Surendra Kumar Jain, Director  
DIN: 00166852

**SMFG India Home Finance Company Ltd.**  
(Formerly Fullerton India Home Finance Co. Ltd.)

**SMFG India Home Finance Company Ltd.**  
Corporate Office: 503A, 504, 5th Floor, G-Block, Inspiro BKC, BKC, Marolli Nagar, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051, India  
Regd. Office: High Tower, P-3, 3rd Floor, 307, New No. 155, Promenade High Tower, Connaught Place, Connaught Place, New Delhi-110 028, India

**POSSESSION NOTICE TO THE BORROWERS**

WHEREAS the undersigned being the Authorized Officer of SMFG India Home Finance Company Ltd. (Formerly Fullerton India Home Finance Company Ltd.) a Housing Finance Company (fully registered with National Housing Bank (Fully Owned by RBI)) (hereinafter referred to as "SMHFC") under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act), and in exercise of the powers conferred under Section 13(1)(c) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued under the said Act, and in exercise of the powers conferred under Section 13(2) of the said Act, calling upon you being the borrowers (names mentioned below) to repay the amount mentioned in the said notice and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers mentioned herein below having failed to repay the amount, interest as hereby given by the borrowers mentioned herein below and to the public in general that the undersigned has taken Physical Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on it under sub-section (4) of Section 13 of the said Act with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. The borrowers mentioned here in above in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with said property and any dealings with the property will be subject to the charge of "SMHFC" for an amount as mentioned herein under and interest thereon.

Sr. No.	Name of the Borrower(s) / Guarantor(s) (LN)	Description of Secured Assets (Immovable Property)	Demand Notice Date & Amount	Date of Possession
1.	LAN: 60659321112509 (1. Dishaad Shobh 2. Shobh Aashwini)	All Three Phase & Parcel Bearing Plot No.103, On The First Floor, Adjoining About 24.91 Square Meter Carpet Area, Residential Terrace 'W', S. Area & Balcony Area 5.10 Sq. Mtrs. Copthorne Area 5.39 Sq. Mts. & Other Area 3.58 Sq. Mts. Copied Alongwith Parking Space Bearing No. 02/1 to the Building To Be Known As "Morva Villa", S.No. 111, Plot No. 8, Millage, Dhamate, Neral Tal. Karjat, Dist. Rajgad-41 101 Building Consists of Ground Plus Three Floors.	Date: 05.10.2023 ₹ 19,94,223.92 (Rs. Nineteen Lakhs Ninety Four Thousand Two Hundred Twenty Three and Ninety Two Paise Only) along with interest as on 05.10.2023	30.05.2024 (PHYSICAL POSSESSION)

Date: 28.05.2024  
Place: Neral, Maharashtra  
SMFG INDIA HOME FINANCE COMPANY LIMITED (Formerly Fullerton India Home Finance Co. Ltd.)  
Authorized Officer

**SPARC ELECTREX LTD**  
(Formerly Known as Spars Systems Limited)

Regd. Office: 1202, 12th Floor, Esperanza Building, Near to Bank of Baroda, 198, Linking Road, Bandra (W), Mumbai - 400 050, India, CIN: L1901MH1981P033667 | Tel: 91 22 26101911  
E-Mail: sparcelectrex@gmail.com | www.sparcelectrex.com

**Extract of Standalone Annual Audited Financial Results for the Quarter and Year ended BSE Code: 531370 31st March, 2024 (Rs. In Lacs except EPS)**

Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
	31st March 2024 (Audited)	31st March 2023 (Audited)	31st March 2024 (Audited)	31st March 2023 (Audited)
Total Income from operations & other revenue	417.03	740.32	302.4	525.83
Net Profit / (Loss) (before tax and/or extraordinary items)	20.82	42.06	2.85	77.56
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Extraordinary Items)	20.82	42.06	2.85	77.56
Net Profit/(Loss) after tax (after extraordinary items)	-7.36	5.78	2.09	69.05
Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit/loss for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	0.00	0.00	0.00	0.00
Equity Share Capital	1132.42	1132.42	456.85	456.85
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	0.00	-307.13	0.00	-17.73
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	-0.09	0.12	0.04	1.42
Basic	-0.09	0.12	0.04	1.42
Diluted	-0.04	0.05	0.04	1.42

Note: 1. The above audited financial results of the Company for year ended 31st March, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors at their respective meetings held on 29th May, 2024.

2. The standalone audited financial results for the year ended 31st March, 2024 have been prepared in accordance with Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules issued thereunder and in terms of Regulation 33 and Regulation 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

3. The Company operates in two segments as defined by IND AS 108, Segment Reporting for the reportable segment is attached with the result.

4. The figures of the previous year and/or period(s) have been regrouped wherever necessary.

5. The above financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 are available on the Stock Exchange website (www.sebiindia.com) and on the Company's website (www.sparcelectrex.com).

6. The company has come out with a right issue of Rs. 2786.73 Lakhs during the FY 23-24 out of which Rs. 1565.21 Lacs is pending to be paid up on account of call money on 31st March 2024.

For Spars Electrex Limited  
Sd/-  
(Shabbir Hegde)  
(WTD & CFO)  
DIN: 02211182

Date: 30th May, 2024  
Place: Mumbai

**FILTRA CONSULTANTS AND ENGINEERS LIMITED**

Registered Office: W-27, T Block, MIDC, Bhosari, Pune-411026  
Tel: 9440294002/9440294003 Email: dir@filtra.in, Web: www.filtra.in  
CIN: L24202MH1999P022970

**NOTICE TO THE MEMBERS**

I am hereby informed that the 13th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Filtra Consultants and Engineers Limited is scheduled to be held on Tuesday, July 02, 2024 at 11:30 a.m. through Video Conferencing (VC) or Audio-Visual Means (AVM) to transact the business as set out in the Notice of AGM, only through electronic mode. The Notice of AGM along with Annual Report will be sent only through electronic mode to the Members whose e-mail ID is registered with the Company/Depositories/Registrar and Share Transfer Agent (RTA) in accordance with the circular issued by the Ministry of Corporate Affairs vide General Circular No. 02/2023 dated January 25, 2023 and with Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 20, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, circular No. 11/2023 dated January 18, 2023 and Securities and Exchange Board of India (SEBI) 'Vote in Circle No. SEBI/HO/CFD/CMD/IR/PUD-2/P/2023 dated October 7, 2023 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/IR/P/2023 dated July 12, 2020, circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/IR/P/2021 dated January 15, 2021, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/IR/P/2022 dated May 18, 2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/IR/P/2024 dated January 15, 2024 in relation to. In addition, relaxation in relation to compliance with certain provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 - Covid-19 pandemic (collectively referred to as "SEBI Circulars"), The same shall also be available on the website of the Company at www.filtra.in and on the website of Stock Exchange, BSE Limited at www.bseindia.com. The AGM Notice shall also be available on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.nseonline.nedl.com. Members can attend and participate in the AGM through VC/AVM facility only. The notice of AGM, as per MCA/SEBI, AGM, the agenda and also will be provided on the website of the AGM, Members attending through VC/AVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.

**Instruction for Remote voting prior to the AGM and Remote voting during the AGM**

- Since our Company is listed on SME Segment of BSE Limited, provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is not applicable to the Company. However, as the 13th AGM is being conducted through VC/AVM, the provisions of MCA/SEBI, AGM, the agenda and also will be provided on the website of the AGM, Members attending through VC/AVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.
- Members may cast their vote electronically, Remote voting shall be allowed by NSDL after 05:00 p.m. on Monday, July 01, 2024 and Members will not be allowed to vote through remote voting thereafter. Once the remote voting is closed, the remote voting during the AGM shall be allowed by NSDL for voting 15 minutes after the conclusion of the Meeting.
- The Members have cast their vote by remote voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/AVM but shall not be entitled to cast their vote again.
- Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice and before the commencement of the AGM, may obtain the login ID and password by sending a request at [agm@filtra.in](mailto:agm@filtra.in). However, if a person is already registered with NSDL for remote voting then he/she can use his/her existing login ID and password, and cast his/her vote.
- Members are requested to read all the notes set out in the Notice of the AGM and instructions for participating at the AGM and manner of casting vote through remote voting or through voting during the AGM. This notice is issued for the benefit of all the Members of the Company in compliance with the applicable MCA & SEBI Circulars.
- As per the MCA Circulars and SEBI Circulars, no physical copies of the Notice of the AGM and Annual Report will be sent to Members, Members who have not registered their email addresses to follow the process mentioned below or who do not register prior to 05:00 p.m. (IST) on Saturday, June 08, 2024 for registering their e-mail addresses to receive the Notice of AGM and Annual Report electronically and to receive login ID and password for remote voting. In case members are not able to receive the Notice of AGM and Annual Report scanned copy of PAN card, AADHAR (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to [agm@filtra.in](mailto:agm@filtra.in).
- In case shares are held in demat mode, please provide (a) DLID (DLID + CUID or 15 digit beneficiary ID), Name, client master copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to [agm@filtra.in](mailto:agm@filtra.in).
- In case of any queries/questions pertaining to remote voting (prior to and/or during the AGM) you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available in the 'Downloads' section of [www.filtra.in](http://www.filtra.in) or call on 022-48867000 or send a request to Ms. Pranjita Pawle at [agm@filtra.in](mailto:agm@filtra.in).
- Members are requested to address the grievances connected with e-voting by electronic means: Contact Ms. Pranjita Pawle on 022 - 4886 7000 or send a request to [agm@filtra.in](mailto:agm@filtra.in).

For Filtra Consultants and Engineers Limited  
Sd/-  
Ketan Khant  
Chairman & Managing Director  
DIN: 05520163

Date: May 30, 2024  
Place: Mumbai

**WABAG VA TECH WABAG LIMITED**

CIN: L42052N1995PL030231  
Regd. Office: "WABAG HOUSE", No.17,  
200 Feet Thorapalkam-Pallavaram Main Road, Sumbakkulathur, Chennai 600 117,  
Tamil Nadu-600 033. India  
Website: www.wabag.com  
Email: companysecretary@wabag.in

**NOTICE (for the attention of Equity Shareholders of the Company)**

This Notice is published pursuant to provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules 2016, as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Rules"). Pursuant to section 124(5) & 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the Rules, the Company is mandated to transfer unclaimed/ unpaid dividend pertaining to the FY 2016-17 and all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the Shareholders for seven (7) consecutive years or more to the Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPF"). The Rules, among other matters, contain provisions for transfer of these shares to the IEPF. The Company has given intimation to the Shareholders and requested them to claim their unclaimed dividend of previous years, to enable the Company to revalidate the same before it is liable to be transferred to IEPF as per the Rules. We would also request the Shareholders to update their current bank details, e-mail ID, contact number, address and other KYC documents including nominee details with their respective depository participant(s), to enable the Company/ Registrar and Share Transfer Agent (RTA) to process their claims, if any.

The Shareholders are requested to approach the Company/ RTA as the earliest to enable the Company to process their valid request(s) for revalidation of unclaimed dividend before it gets transferred to IEPF in accordance with the Rules. The Shareholders are further requested to make their claim for dividend entitlements, if any, for FY 2016-17, on or before 31.07.2024. In case, the Company or RTA does not receive any communication from the concerned Shareholders, the Company shall, with a view to comply with the requirements as being set out in the Rules, transfer the unclaimed dividend for FY 2016 - 17 and the corresponding shares) respect of which dividend has not been claimed by the Shareholders for seven (7) consecutive years will also be transferred to the IEPF by way of corporate action with depositories in accordance with the Rules.

The Company has updated full details of such Shareholders viz. Name, DP / Client ID / Folio No, dividend amount and shares due for transfer to the IEPF, on its website [www.wabag.com](http://www.wabag.com). The Shareholders are requested to refer the website of the Company to verify the details of unclaimed dividend and shares liable to be transferred to the IEPF during the month of September 2024.

Please note that no claim shall lie against the Company/ RTA in respect of unclaimed dividend and shares transferred to the IEPF pursuant to the Rules.

The Shareholders may please note that both the unclaimed dividend and the corresponding shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back from the IEPF Authority directly by the share holders after following the procedure prescribed in the Rules.

In case of any queries/clarifications, the concerned Shareholders may contact the Company at the above address (or) Mr. Anup Kumar Samal, KFin Technologies Limited, quoting the Form No./ DP-ID/Client ID as:

**KFIN TECHNOLOGIES LIMITED**  
Unit: VA TECH WABAG LIMITED  
Sector: Building, Tower B, Plot 31-32, Financial District, Manekranjandra, Serilingampally Mandal, Ranganagudi, Hyderabad, Telangana-500032.  
Toll free no: 1800-3094001, Email: [enward@kfin.tech](mailto:enward@kfin.tech),  
Website: [www.kfin.tech](http://www.kfin.tech) | Website: [www.wabag.com](http://www.wabag.com)

For VA TECH WABAG LIMITED  
Sd/-  
Anup Kumar Samal,  
Date: 29.05.2024  
Company Secretary & Compliance Officer

Note: a. As part of "Green Initiative" movement for paperless environment, the Shareholders are requested to register/update their correct address, contact number and email with their respective depository participants, to enable company RTA to send communication(s) through electronic mode.  
b. The Shareholders are requested to approach the company/RTA for any unclaimed dividend entitlement(s) from FY 2016-17 onwards.

**3B BLACKBIO DX LIMITED**

(Formerly, Kilpesh India Limited)  
CIN: L24211MP1972PL001131  
REGD. OFFICE: 7-C, INDUSTRIAL AREA, GOVINDPURA, BHOPAL-462 023  
E-mail: [info@kilpesh.com](mailto:info@kilpesh.com), Website: [www.kilpesh.com](http://www.kilpesh.com)  
Tel: (91) 755 2586536, 2586537

**EXTRACTS OF STATEMENT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/YEAR ENDED 31st MARCH, 2024**

PARTICULARS	QUARTER ENDED				YEAR ENDED			
	31.03.2024 (audited)	31.12.2023 (unaudited)	31.03.2023 (audited)	31.03.2023 (audited)	31.03.2024 (audited)	31.03.2023 (audited)	31.03.2023 (audited)	31.03.2023 (audited)
Total Income from Operations	2613.24	1942.41	1855.60	830.25	6660.16	6660.16	6660.16	6660.16
Net Profit for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	1398.60	1184.46	901.50	464.44	3584.33	3584.33	3584.33	3584.33
Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1398.60	1184.46	901.50	464.44	3584.33	3584.33	3584.33	3584.33
Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	905.73	920.95	577.97	342.15	2642.40	2642.40	2642.40	2642.40
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	905.73	920.95	577.97	342.15	2642.40	2642.40	2642.40	2642.40
Equity Share Capital	856.84	856.79	749.18	856.84	749.18	749.18	749.18	749.18
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous financial year)	18860.28	16728.30	18860.28	18860.28	16728.30	16728.30	16728.30	16728.30
Earnings Per Share	10.57	10.75	7.71	39.93	35.27	35.27	35.27	35.27
1. Basic	10.57	10.75	7.71	39.93	35.27	35.27	35.27	35.27
2. Diluted	10.57	10.75	7.71	39.93	35.27	35.27	35.27	35.27

**EXTRACTS OF STATEMENT OF CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/YEAR ENDED 31st MARCH, 2024**

PARTICULARS	QUARTER ENDED				YEAR ENDED			
	31.03.2024 (audited)	31.12.2023 (unaudited)	31.03.2023 (audited)	31.03.2023 (audited)	31.03.2024 (audited)	31.03.2023 (audited)	31.03.2023 (audited)	31.03.2023 (audited)
Total Income from Operations	2719.24	2029.65	1926.42	866.73	6906.22	6906.22	6906.22	6906.22
Net Profit for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	1372.90	1115.19	836.33	443.22	3530.95	3530.95	3530.95	3530.95
Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1372.90	1115.19	836.33	443.22	3530.95	3530.95	3530.95	3530.95
Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	879.03	851.68	519.73	320.12	2593.70	2593.70	2593.70	2593.70
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	879.03	851.68	519.73	320.12	2593.70	2593.70	2593.70	2593.70
Equity Share Capital	856.84	856.79	749.18	856.84	749.18	749.18	749.18	749.18
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous financial year)	18841.90	16841.90	16373.45	18841.90	16458.43	16458.43	16458.43	16458.43
Earnings Per Share	10.26	9.94	6.94	37.46	34.62	34.62	34.62	34.62
1. Basic	10.26	9.94	6.94	37.46	34.62	34.62	34.62	34.62
2. Diluted	10.26	9.94	6.94	37.46	34.62	34.62	34.62	34.62

Note: 1. The above result is an extract of the detailed format of Quarterly financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Quarterly Financial Results are available on the BSE website (www.bseindia.com) and on the Company's website ([www.kilpesh.com](http://www.kilpesh.com))  
2. The above